

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 अगस्त 2022

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में "ग्लोबल पे" नामक एक क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?

- A) अमेरिकन एक्सप्रेस
- B) कैपिटल वन
- C) डिस्कवर फाइनेंसियल सर्विसेज
- D) मास्टरकार्ड

**सही उत्तर: A**

अमेरिकन एक्सप्रेस ने ग्लोबल पे नामक छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है।

### प्रश्न -2

स्टार्ट-अप के लिए 50 करोड़ रुपये उधार देने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में SRM विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

- A) बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- C) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- D) इंडियन बैंक

**सही उत्तर: D**

इंडियन बैंक ने SRM विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के साथ स्टार्ट-अप के लिए 50 करोड़ तक ऋण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 अगस्त 2022

### प्रश्न -3

निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटिएम के स्थान पर BCCI का अगला टाइटल प्रायोजक बन गई है?

- A) वीवो
- B) मास्टरकार्ड
- C) ड्रीम 11
- D) बायजू'स

**सही उत्तर: B**

मास्टरकार्ड BCCI द्वारा आयोजित सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटिएम की जगह लेगा।

### प्रश्न -4

भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते?

- A) 41
- B) 51
- C) 61
- D) 71

**सही उत्तर: C**

भारत का राष्ट्रमंडल खेल 2022 अभियान 61 पदकों के साथ समाप्त हुआ - भारत बर्मिंघम में चौथा सर्वश्रेष्ठ देश बना।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 अगस्त 2022

### प्रश्न -5

विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया?

- A) 11 अगस्त
- B) 09 अगस्त
- C) 08 अगस्त
- D) 05 अगस्त

**सही उत्तर: B**

विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है।

### प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज़ मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है?

- A) चंडीगढ़
- B) दिल्ली
- C) जम्मू और कश्मीर
- D) पुडुचेरी

**सही उत्तर: C**

केंद्र शासित प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने "परवाज़ मार्केट लिंकेज स्कीम" शुरू की।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 अगस्त 2022

### प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डेलाॅइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है?

- A) गुजरात
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) उत्तर प्रदेश
- D) उत्तराखंड

**सही उत्तर: C**

राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलाॅइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

### प्रश्न -8

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं?

- A) 20
- B) 22
- C) 28
- D) 30

**सही उत्तर: B**

भारत ने CWG 2022 अभियान को पदक तालिका में चौथे सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में समाप्त किया। भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 14 अगस्त 2022

### प्रश्न -9

विश्व शेर दिवस कब मनाया गया?

- A) 10 अगस्त
- B) 09 अगस्त
- C) 08 अगस्त
- D) 07 अगस्त

**सही उत्तर: A**

शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है।

### प्रश्न -10

निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था?

- A) नीतीश कुमार
- B) राबड़ी देवी
- C) तेज प्रताप यादव
- D) तेजस्वी यादव

**सही उत्तर: D**

RJD नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।